

The Corporate Relationship Department, BSE Limited Ist Floor, New Trading Ring Rotunda Building, P.J. Towers Dalal Street, **Mumbai 400 001**

Scrip Code-503806

National Stock Exchange of India Limited "Exchange Plaza" Bandra-Kurla Complex Bandra (E) **Mumbai 400 051**

Scrip Code-SRF

SRF/SEC/BSE/NSE 08.09.2021

Dear Sirs,

Sub: Submission of copies of newspaper publication for Postal Ballot Notice

In addition to our intimation dated 06.09.2021, we wish to inform that SRF Limited has issued a newspaper advertisement for Postal Ballot under applicable provisions of the Companies Act, 2013, read with relevant rules made thereunder, and other applicable laws & regulations, as amended and in terms of the circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India vide its General Circular Nos.14/2020 dated April 08,2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 22/2020 dated June 15, 2020, 33/2020 dated September 28, 2020, 39/2020 dated December 31, 2020 and General Circular No. 10/2021 dated June 23, 2021 in view of COVID-19 pandemic ("MCA Circulars").

Enclosing a copy of Newspaper Advertisement dated September 08, 2021, published in 'Financial Express' and in 'Jansatta' (electronic editions available). The same has been made available on the Company's website www.srf.com

Please take the above on record and acknowledge receipt of the same.

Thanking you,

Yours faithfully,

For **SRF LIMITED**

Rajat Lakhanpal

VP (Corporate Compliance) & Company Secretary

Encl: A/a

SRF LIMITED
Block-C Sector 45
Gurugram 122 003
Haryana India
Tel: +91-124—4354400
Fax: +91-124—4354500
E-mail: info@srf.com
Website: www.srf.com
Regd. Office:
Unit No. 236 & 237, 2nd Floor
DLF Galleria, Mayur Place
Noida Link Road
Mayur Vihar Phase 1 Extension
Delhi 110091

देवास (मप्र), ७ सितंबर (भाषा)।

मध्य प्रदेश के देवास जिले में मोबाइल फोन पर पबजी गेम खेलते-खेलते 19 वर्षीय एक दिव्यांग लड़का कथित तौर पर अचानक बेहोश हो गया उसकी मौत हो गई। यह घटना देवास जिले के औद्योगिक क्षेत्र थाना इलाके स्थित शांतिनगर में रविवार दोपहर को हुई। औद्योगिक क्षेत्र थाना प्रभारी अनिल शर्मा ने मंगलवार को बताया कि परिजनों के अनुसार कक्षा 11वीं का छात्र दीपक राठौर रविवार दोपहर को अपने घर पर अपने मोबाइल फोन पर पबजी खेलते समय अचानक अचेत हो।

उन्होंने कहा कि इसके तुरंत बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शर्मा ने बताया कि वह पैर से दिव्यांग था। हाल ही में उसने दसवीं की परीक्षा पास की थी और 11वीं में प्रवेश लिया था। उन्होंने कहा कि पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया है और शव का पोस्टमॉर्टम करने के बाद उसके परिजन को सौंप दिया है। शर्मा ने बताया कि मृतक का विसरा जांच के लिए भोपाल भेजा जाएगा और उसके बाद ही उसकी मौत का असली कारण स्पष्ट होगा। हालांकि शुरुआती जांच में पता चलता है कि उसकी मौत का कारण दिल का दौरा पड़ना हो सकता है।

मप्र: कुल्हाड़ी मार कर नाबालिग लड़की की हत्या

बालाघाट (मप्र), ७ सितंबर (भाषा)।

मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में अपनी सहेलियों के साथ स्कुल से घर लौट रही नाबालिग लड़की की एक युवक ने कथित तौर पर कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी। पुलिस को संदेह है कि सिरिफरे ने उसकी हत्या की है। अनुविभागीय अधिकारी पुलिस (एसडीओपी) दुर्गेश आर्मी ने मंगलवार को बताया कि घटना सोमवार शाम चार बजे के आसपास उस वक्त हुई, जब यह छात्रा किरनापुर थानाक्षेत्र में अपनी सहेलियों के साथ साइकिल पर स्कुल से घर जा रही थी। उन्होंने कहा कि हत्यारे की पहचान हो गई हैं और उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम जुटी है, जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

इसी बीच, किरनापुर थाने के प्रभारी नवीन यादव ने बताया कि एक युवक ने रास्ते में धारदार हथियार से उसकी हत्या की और मौके से फरार हों गया। यादव के अनुसार साथ की लड़कियों ने आरोपी को देखा है और उसकी तलाश जारी है।

रेलगाड़ी सं. २०५०३/२०५०४ डिब्रूगढ़-नई दिल्ली-डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस के परिचालन दिनों में वृद्धि

सर्वसंबंधित को सुचित किया जाता है कि रेलवे द्वारा नई समय-सारणी लागू होने की तिथि से रेलगाड़ी सं. 20503/ 20504 डिब्र्गढ़-नई दिल्ली-डिब्र्गढ़ राजधानी एक्सप्रेस विशेष को सप्ताह में एक दिन की जगह सप्ताह में 05 दिन परिचालन करने का निर्णय लिया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

रेलगाड़ी सं.	से	तक	परिचालन के वर्तमान दिन	परिचालन के अतिरिक्त दि (प्रारंभिक स्टेशन से)	
20503	डिब्रूगढ	नई दिल्ली	गुरुवार	रवि, मंगल, बुध, गुरु, शनि	
20504	नई दिल्ली	डिब्रूगढ	मंगलवार	सोम, मंगल, बुध, शुक्र, शनि	

नोटः नई समय-सारणी की तिथि बाद में घोषित की जायेगी रेलगाडियों और रेलवे स्टेशनों पर कोविड-19 से संबंधित राज्य एवं केन्द्र

सरकार के सभी नियमों और सभी सावधानियों का पालन करना अनिवार्य है। रेलमदद हेल्पलाईन नं. 139 • रेलमदद वेबसाइटः

www.railmadad.indianrailways.gov.in देखें एवं रेलमदद ऐप डाउनलोड करें।



पर हमें फॉलो करें



अनन्त राज ।लामटड

सीआईएन : L45400HR1985PLC021622 पंजीकत कार्यालय : प्लॉट सं. सीपी-1. सेक्टर-8. आईएमटी मानेसर गरुग्राम. हरियाणा-122051 टेलीफैक्स : (0124) 4255817, मुख्य कार्यालय : एच-65, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली-110001 दूरभाष : 011-43034400, 43034426, फैक्स : 011-43582879 ई-मेल : manojpahwa@anantrajlimited.com, वेबसाइट : www.anantrajlimited.com

36वीं वार्षिक आम बैठक, ई-वोटिंग की जानकारी तथा बुक क्लोजर की सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि 36वीं एजीएम की सूचना में निर्धारित सामान्य एवं विशेष प्रकार्यों की मदों के लेन देन के लिए अनन्त राज लिमिटेड के सदस्यों की 36वीं वार्षिक आम बैठक (''एजीएम'') गुरुवार, 30 सितम्बर 2021 को 10.00 बजे कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय प्लॉट सं. सीपी-1, सेक्टर-8, आईएमटी मानेसर, गुरुग्राम हरियाणा-122051 पर आयोजित की जायेगी।

तुलन पत्र, लाभ एवं हानि खाता, निदेशक की रिपोर्ट, लेखापरीक्षक की रिपोर्ट सहित वित्त वर्ष 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट की प्रति तथा 36वीं एजीएम की सूचना की एक प्रति जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ ई-वोटिंग की प्रक्रिया प्रॉक्सी प्रपत्र एवं उपस्थिति पर्ची आदि तथा यूजर आईडी एवं पासवर्ड उन सभी शेयरधारकों के पास ई-मेल क दिये गये हैं जिनके ई-मेल आईडी ग्रीन इनिशिएटिव उपायों के अंग के रूप में उपलब्ध हैं और उन शेयरधारकों वे पास जिनके ई-मेल आईडी उपलब्ध नहीं हैं. उनके पास डाक द्वारा इसकी भौतिक प्रतियां भेज दी गयी हैं। एजीएम की सचना तथा 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्त वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट 6 सितम्बर, 2021 को पारेषित/भेजी ज

बुक क्लोजर : कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 10 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 एवं अन्य प्रयोज्य प्रावधानों, यदि कोई हो तथा सेबी (सचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 42 के अनुसार कम्पनी की शेयर अंतरण पुस्तकें तथा सदस्यों के रजिस्टर शुक्रवार 24 सितम्बर, 2021 से गुरुवार, 30 सितम्बर, 2021 (दोनों तिथियाँ शामिल) तक बन्द रहेंगी और यदि आगामी एजीएम में घोषित किया गया तो, वित्त वर्ष 2020-21 के लाभांश के भगतान के लिए पात्र सदस्यों के नाम सुनिश्चित करने के लिए रिकार्ड तिथि 23 सितम्बर, 2021 (समाप्ति के घंटे) होगी। 14 अगस्त, 2021 को आयोजित निदेशक मंडल द्वारा संस्तृत के अनुसार सदस्यों द्वारा 36वीं एजीएम में घोषित किए

जाने पर, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 126 के प्रावधानों के अध्यधीन इक्विटी शेयरों पर लाभांश पात्र सदस्यों को 36वीं एजीएम की तिथि से 30 दिनों के भीतर प्रदान कर दिए जायेंगे।

लाभांश का भुगतान उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड में किया जायेगा जिनके बैंक खाता विवरण कम्पनी/आरटीए के साथ पंजीकृत हैं। यदि कम्पनी बैंक खाते के विवरण की अनुपलब्धता के कारण लाभांश का भुगतान करने में असमर्थ है तो कम्पनी ऐसे शेयरधारकों के पास डाक द्वारा लाभांश वारंट भेज देगी।

ई-वोटिंग : सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 तथा कम्पनी अधनियम, 2013 के साथ पठित इसके तहत यथासंशोधित निर्मित प्रासंगिक नियमों की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसार कम्पनी 36वीं एजीएम में लेन-देन किये जाने वाले व्यवसायों के परिप्रेक्ष्य में रिमोट ई-वोटिंग नामक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा सदस्यों को उनके मताधिकार का उपयोग करने की सुविधा प्रदान कर रही है। कम्पनी रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा हेतु नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की सेवाएं ग्रहण कर रही है। रिमोट ई-वोटिंग सोमवार, 27 सितम्बर, 2021 को प्रातः 9.00 बजे (भा.मा.स.) प्रारम्भ होगी और बुधवार 29 सितम्बर, 2021 को 5.00 बजे अप. (भा.मा.स.) समाप्त होगी। बुधवार, 29 सितम्बर, 2021 को 5.00 बजे अप. (भा.मा.स.) के उपरान्त ई-वोटिंग की अनुमित नहीं होगी। इस अविध के दौरान कट-ऑफ तिथि अर्थात 23 सितम्बर, 2021 तक भौतिक या अभौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्य इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मतदान कर सकते हैं। शेयरधारक द्वारा एक बार संकल्प पर मतदान कर लेने के उपरान्त बाद में उसे इसमें परिवर्तन की अनुमित नहीं दी जाएगी। रिमोट ई-वोटिंग के निर्देश 36वीं एजीएम की उपर्युक्त सूचना में दिए गये हैं।

कोई व्यक्ति जो कम्पनी के शेयर अर्जित करता है और 36वीं एजीएम की सूचना भेजे जाने के उपरान्त कम्पनी का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तिथि अर्थात 23 सितम्बर, 2021 (क्लोजिंग घंटों) तक शेयर धारण करता है वह उपर्युक्त सूचना में उल्लिखित प्रक्रिया का अनुपालन करके या evoting@nsdl.co.in पर निवेदन भेजकर लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।

36वीं एजीएम की सुचना तथा वार्षिक रिपोर्ट आदि की प्रति कम्पनी की वेबसाइट www.anantrajlimited.com तथा एनएसडीएल की वेबसाइट https://www.evoting.nsdl.com तथा स्टॉक एक्सचेंजों जहाँ कम्पनी के शेयर सुचीबद्ध हैं अर्थात बीएसई लिमिटेड एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के वेबसाइटों क्रमशः www.bseindia.com तथा www.nseindia.com पर उपलब्ध है और डाउनलोड की जा सकती है। 36वीं एजीएम के स्थल पर बैलट पेपर के माध्यम से वोटिंग की सविधा उपलब्ध कराई जायेगी और बैठक में भाग लेने वाले सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से पहले मतदान नहीं किया है वे बैलट पेपर के माध्यम से

बैठक में मताधिकार का उपयोग कर सकते हैं। जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान कर लिया है वे एजीएम में उपस्थित रह सकते हैं किन्त वे पनः मतदान के पात्र नहीं होंगे। जिस व्यक्ति का नाम कट-ऑफ तिथि तक सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरी द्वारा अनुरक्षित लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है केवल वे रिमोट ई-वोटिंग या 36वीं एजीएम के दौरान बैलट पेपर से वोटिंग के पात्र होंगे। जो व्यक्ति कट-ऑफ तिथि तक सदस्य नहीं है उसे इस सुचना को केवल सुचना के रूप में लेना चाहिए।

सुश्री प्रिया जिन्दल (सदस्यता सं. एसीएस 52116), कार्यरत कम्पनी सचिव को निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से ई-

वोटिंग प्रक्रिया संचालन करने हेतु संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।). वित्त अधिनियम, 2021 के अनुसार सदस्यों की लाभांश आय 01 अप्रैल, 2021 से कर योग्य होगी और कम्पनी को सदस्यों को प्रदत्त लाभांश पर निर्धारित दर पर स्रोत पर कटौती (टीडीएस) करना अपेक्षित होगा। विभिन्न श्रेणियों हेत निर्धारित दरों के लिए सदस्य वित्त अधिनियम, 2020 तथा उसके संशोधनों 30 सितम्बर, 2021 को आयोजित होने वाली 36वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना का संदर्भ लें। सदस्य यदि अभौतिक प्रारूप में शेयर धारण करते हैं तो वे अपने डिपॉजिटरी भागीदारों (डीपी) के साथ अपनी आवासीय स्थिति, पैन, आयकर अधिनियम के अनुसार श्रेणी तथा यदि भौतिक प्रारूप में शेयर धारण करते हैं तो कम्पनी के साथ

manojpahwa@anantrajlimited.com/ ak.prashar@anantrajlimited.com या कम्पनी के आस्टीए के पास rta@alankit.com अपडेट करा लें। 1. ई-वोटिंग के विषय में किसी पूछताछ/शिकायत के लिए, सदस्य एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट www.evoting.nsdl.com के हेल्प खण्ड के तहत उपलब्ध शेयरधारकों हेतु 'फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन्स

(एफएक्यू) तथा शेयरधारकों हेतु 'ई-वोटिंग मैनुअल' का संदर्भ ले सकते हैं या evoting@nsdl.co.in पर ई-मेल कर सकते हैं या टोल फ्री नं. 1800222990 तथा एनएसडीएल के दूरभाष नं. +912224994600/24994738 पर कॉल कर सकते हैं। सदस्य श्री मनोज पाहवा, कम्पनी सचिव एवं श्री ए.के. पराशर, वरिष्ठ प्रबंधक सचिवीय को manojpahwa@anantrajlimited.com/ak.prashar@anantrajlimited.com पर या कम्पनी के मख्य कार्यालय को लिख सकते हैं। कते अनन्त राज लिमिटेड

मनोज पाहवा कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

स्वीकृत कुल ऋण राशिः रु. 10,50,000 / – (रुपये दस

गुजरात में बस पलटने से अहमदाबाद, 7 सितंबर (भाषा)। गुजरात के अहमदाबाद जिले में मंगलवार की सुबह बस पलटने से उसमें सवार 35 लोग घायल हो गए। बस में 55 तीर्थयात्री सवार थे, जो अहमदाबाद से भावनगर जिले तीर्थ राजा पर जो के

कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड कह्या पंजीकृत कार्यातयः 27 केबीसी-27, जी-ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई- 400051 शाखा कार्यातयः कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, रिटेल-एआरडी, वीं मंजिल, प्लॉट नं. 7, सेक्टर – 125, समीप डेल कैंपस, नोएडा, उ.प्र. – 201313 सूचना

जबिक, अधोहस्ताक्षरी **कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड** के अधिकृत अधिकारी होने के नाते, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्ष ब्याज अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के तहत और धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग के साथ पठित सुरक्षा ब्याज (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 ने उधारकर्ताओं को मांग नोटिस जारी किया, जैसा कि नीचे विस्तृत है, संबंधित उधारकर्ताओं को 60 दिनों के भीतर भुगतान की वास्तविक तिथि तक सभी लागतों, शुल्कों और खर्चों के साथ उक्त नोटिस में उल्लिखित राशि को चुकाने के लिए कहा गया है। उसी की प्राप्ति की तिथि से उत्त ऋणी / सह-उधारकर्ता (ओं) द्वारा राशि का भुगतान करने में विफल रहने पर, उधारकर्ताओं / सह-उधारकर्ताओं और आम जनता को एतद्दवारा नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। उस पर उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उक्त नियमों के आर / डब्ल्यू नियम 8 के साथ—साथ उल्लिखित तिथियों पर उधारकर्ताओं को विशेष रूप से और आम तौर पर सार्वजनिक रूपे से सावधान किया जाता है कि वे संपत्तियों के साथ सौदा न करें और संपत्तियों के साथ कोई भी लेनदेन कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा, जिसमें भविष्य के ब्याज, लागत और संबंधित तिथियों से शुल्क शामिल होंगे। सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध मे उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाताँ है। धारा 13(2) के तहत उधारकर्ताओ अनुसूचित संपत्ति, बकाया राशि, मांग नोटिस का विवरण और उसके तहत दावा की गई राशि, कब्जे की तिथि नीचे दी गई है

ऋणी का नाम और पता, 1. कब्जे की तिथि, 2. कब्जे का प्रकार ं∣सह–ऋणी, ऋण खाता संख्या, ऋण राशि 3. मांग सूचना तिथि 4. देय राशि रू. 1 श्री नीरज कुमार पुत्र श्री. जगदीश प्रसाद एवं श्रीमती 35 / 147, मापने वाला क्षेत्र 87.59 वर्ग मीटर नगला 1) 03.09.2021 नेहा देवी पत्नी श्री नीरज कुमार सभी यहाँ पर-भवानी सिंह, ताजगंज-वार्ड, तहसील और जिला 2) प्रतीकात्मक कब्जा |श्री कृष्ण निवास, नगला—मकरोल, पोस्ट— काकुआ, आगरा, उत्तर प्रदेश में स्थित है। संपत्ति की सीमा 3) 26.11.2019 ग्वालियर रोड, तहसील और जिला आगरा, आगरा– निम्नानुसार है: पूर्व- दुर्गा सिंह और कैलाशी की 4) रु.11,09,205.49 / - (ग्यारह लाख नौ हजा 282001 **इसके अलावा**: हाउस नंबर 35 / 147, नगला संपत्ति, पश्चिम-पूरने चंद की संपत्ति, उत्तर-मार्ग 2.43 दो सौ पाँच और उन्चास पैसे मात्र) देय औ भवानी सिंह, ताजगंज वार्ड, ग्वालियर रोड, तहसील और मीटर चौड़ी, दक्षिंण-सड़क 9 मीटर चौड़ी, निकास 26.11.2019 से लागू ब्याज के साथ, 27.11.2019 |जिला आगरा, आगरा–282006 । तक देय, जब तक कि भुगतान पूर्ण नहीं ह ऋण खाता संख्याः PR00295226 बंधक का नामः श्री नीरज कुमार पुत्र श्री जगदीश जाता।

श्री राजू कुमार पुत्र स्वर्गीय किशन चंद्र और श्री संजय पिप्पल पुत्र स्वर्गीय। संपत्ति का सभी भाग किशन चंद और श्रीमती ललिता देवी पुत्री स्वर्गीय किशन चंद सभी यहाँ | अंश जिसमें, संपत्ति संख्या | 2. प्रतीकात्मक कब्जा परः मकान नं – 27 / 137, तलैया, काजी पारा, आगरा – 282003 श्रीमती पुष्पा | 27 / 137, नाला काजी | 3. 10.07.2020

3. श्री राजन लाल गुप्ता पुत्र स्वर्गीय बाबू लाल गुप्ता संपत्ति का सभी भाग वै अंश जिसमें खसरा नंबर 67 में से प्लॉट 1. 03.09.2021

देवी पुत्री स्वर्गीय किश्रन चंद यहाँ परः मकान नं – 43/306, रेलवे लॉइन, पाझ, तलैया, चिपटोला, ४.रू. 16,42,133.49/ – (रू. सोलह लाख ब्याली सिकंदरा, आगरा, श्रीमती सुमन देवी पत्नी स्वर्गीय किशन चंद यहाँ परः-आगरा उत्तर प्रदेश 282003 हजार एक सौ तैंतीस और उन्चास पैसे मात्र) देय औ 52 / 110, बारहाखंबा, नई बस्ती. शाहगंज. आगरा बंधक का नाम: श्री राज् 10.07.2020 से लागू ब्याज के साथ, 11.07.2020 तव ऋण खाता संख्याः PR00317306 और PR00376007 देय, जब तक कि भूगतान पूर्ण नहीं हो जाता। स्वीकृत ऋण राशिः रु.12,50,000 / – (रुपये बारह लाख और पचास हजार

राजन लाल गुप्ता सभी यहाँ पर: मकान नं—288, कच्ची पश्चिम —16 फीट मापने वाले और उत्तर से दक्षिण—30 फीट, 3. 20.01.2020 4.रू.14,63,277.74 / —(चौदह लार पूरा, आगरा छावनी, आगरा — 282001 **यहाँ पर भी**— श्रीजी धाम, मौजा बरौली अहीर, तहसील और जिला— आगरा तिरेसठ हजार दो सौ सतत्तर और चौहत्त प्लॉट नंबर 6, खसरा नंबर 67, श्री जी धाम, मौजा बरौली उत्तर प्रदेश—282001, संपत्ति की चौहददी निम्नानुसार है: पैसे मात्र) देय और 20.01.2020 से लाग अहीर, तहसील और जिला— आगरा, उत्तर प्रदेश—282001 पूर्व—प्लॉट नंबर 4, पश्चिम—प्लॉट नंबर 8, उत्तर—रोड और ब्याज के साथा 21.01.2020 तक देय, जब निकास 20 फीट चौड़ा, दक्षिण—प्लॉट । तक कि भूगतान पूर्ण नहीं हो जाता। स्वीकृत ऋण राशिः रु 11,00,000 /— (रुपये ग्यारह बंधक का नामः श्री राजन लाल गुप्ता पुत्र स्वर्गीय बाब लाल

और श्रीमती सुदेश गुप्ता उर्फ स्वदेश गुप्ता पत्नी श्री नंबर 6, क्षेत्रफल 53.33 वर्ग गज यानी, 44.59 वर्गमी. पूर्व से 2. प्रतीकात्मक कब्जा

किसी भी प्रश्न के लिए कृपया श्री सोमेश सुंदरियाल (+91 9910563402), श्री विवेक कनौजिया (+91 9205177091) और श्री प्रशांत गौतम (+91 9643615436) से संपर्क करें स्थानः आगरा, दिनांक 03.09.2021 अधिकृत अधिकारीः कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड

महत्वपूर्ण सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि रेलवे द्वारा निम्नलिखित विशेष मेल / एक्सप्रेस रेलगाड़ियों की समय-सारणी में नीचे प्रदर्शित स्टेशनों पर निम्नानुसार संशोधन करने का निर्णय लिया गया है :--

<u> </u>	फ्रिक्वेन्सी		मौजूदा समय		संशोधित समय		प्रभावी
रेलगाड़ी संख्या एवं नाम	1999q-cii	स्टेशन	आगमन	प्रस्थान	आगमन	प्रस्थान	तिथि
02127 जबलपुर – हजरत	बुधवार, शुक्रवार,	झांसी	02:15	02:25	02:10	02:20	04 40 0004
निजामुद्दीन सम्पर्क क्रांति स्पेशल	~ ~ .	ग्वालियर	03:23	03:25	03:18	03:20	01.10.2021
02277 तिरूपति – जम्मू तवी हमसफर स्पेशल	मंगलवार	झांसी	02:57	03:05	02:40	02:48	05.10.2021
01108 बनारस – ग्वालियर		झांसी	06:15	06:20	05:55	06:00	
स्पेशल एक्सप्रेस	प्रतिदिन	दतिया	06:42	06:44	06:30	06:32	01.10.202
(वाया भदोही)	akiiq i	डबरा	07:07	7:07 07:09 06:53 0	06:55	01.10.2021	
(पाया मदाहा)		ग्वालियर	08:30		08:40		s s
09325 इंदौर जं. – अमृतसर स्पेशल एक्सप्रेस	मंगलवार, शुक्रवार	ग्वालियर	06:15	06:20	06:10	06:15	01.10.2021
04185 ग्वालियर – बरौनी जं.	प्रतिदिन	ग्वालियर		12:00		12:05	01.10.2021
प्पेशल एक्सप्रेस		डबरा	12:36	12:38	12:40	12:42	
(वाया लखनऊ)		दतिया	13:04	13:06	13:08	13:10	
04062 नई दिल्ली – झांसी	-00-	डबरा	12:37	12:39	12:33	12:35	
ताज स्पेशल	प्रतिदिन	दतिया	13:06	13:08	13:00	13:02	01.10.202
01107 ग्वालियर –बनारस		ग्वालियर		20:55	122	21:00	
स्पेशल एक्सप्रेस	प्रतिदिन	डबरा	21:30	21:32	21:34	21:36	01.10.2021
(वाया भदोही)		दतिया	22:00	22:02	22:04	22:06	
02537 गोरखपुर – लोकमान्य तिलक (ट) कुशीनगर स्पेशल एक्सप्रेस (वाया बाराबंकी)	प्रतिदिन	कालपी	02:45	02:47	02:55	02:57	01.10.2021
02592 यशवंतपुर जं. –	aduran	उरई	05:58	06:00	05:38	05:40	04.40.000
गोरखपुर स्पेशल एक्सप्रेस (वाया बाराबंकी)	सोमवार	पुखरायाँ	06:38	06:40	06:21	06:23	04.10.202

रेलयात्रियों से अनुरोध है कि किसी भी अन्य जानकारी जैसे मार्ग में पड़ने वाले स्टेशन , श्रीणयों एवं समय—सारणी के लिए रेलमदद हेल्पलाइन नं. 139 पर सम्पर्क करें अथवा रेलवे की वेबसाइट https://enquiry.indianrail.gov.in अथवा NTES App देखें।

रेलगाड़ियों और रेलवे स्टेशनों पर कोविड-19 से संबंधित राज्य एवं केन्द्र सरकार के सभी नियमों और सभी सावधानियों का पालन करना अनिवार्य है।

ख्यलाइन न.

रेलमदद वेबसाइट :www.railmadad.indianrailways.gov.in देखें एवं रेलमदद ऐप डाउनलोड करें।



हमें www.nr.indianrailways.gov.in पर मिलें

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

बैजल इन्टरनेशनल लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: शाप न० 1, प्रथम मंजिल, सीडब्ल्यू-155, संजय गाँधी ट्रांसपोर्ट नगर, नई दिल्ली - 110042 दूरभाष: 011-69999159, ई—मेल: bazelinternational@gmail.com

वेबसाइट: www.bazelinternationalltd.com CIN: L65923DL1982PLC290287

एतदद्वारा सूचना प्रदान की जाती है कि बैजल इन्टरनेशनल लिमिटेड ("कम्पनी") की उन्तालीसवीं वार्षिक साधारण बैठक (एजीएम) वीरवार 30 सितम्बर, 2021 को दोपहर 2:00 बजे डी- 251, ग्राऊन्ड फ्लोर, कानफ्रैन्स हाल, डिफेन्स कालोनी, नई दिल्लीi-110024 में एजीएम की सूचना में वर्णित व्यवसाय निष्पादन हेतु आयोजित की जायेगी। एमसीए परिपत्र दिनांक जनवरी 13, 2021 साथ में पठित परिपत्र दिनांक अप्रैल 08, 2020, अप्रैल 13, 2020 एवं मई 05, 2020 के अनुसरण में एजीएम की सूचना के साथ वित्तीय वर्ष 2020-21की वार्षिक रिपोर्ट उन सभी सदस्यों, जिनके ई-मेल पते कम्पनी के सदस्यों की पंजिका/डिपाजटरीज के रिकार्ड में 20 अगस्त, 2021 को अंकित थे, को केवल ई-मेल द्वारा भेज दी गई है। कोविड 19 की महामारी की स्थिति में आवश्यक अपेक्षित सावधानियों को बरतने के बाद एजीएम को आयोजित की जायेगी।

कम्पनीज अधिनियम, 2013 की धारा 108 साथ में पठित (प्रबन्धन एवं प्रशासन) नियमन, 2014 के नियम 20 जैसा कि संशोधित के अनुसरण एवं सेबी (सूची दायित्वों एवं प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमन, 2015 के विनियमन 44 में पुनः सूचना प्रदान की जाती है किः कम्पनी अपने सभी सदस्यों को ई-वोटिंग की सुविधा उपलब्ध करा रही है ताकि वे अपना वोट इलेट्रानिकली एजीएम की सूचना में वर्णित मदों पर दे सकें।

2. ई—वोटिंग अवधि सोमवार, 27 सितम्बर, 2021 को प्रातः 09:00 बजे प्रारम्भ होगी।

ई–वोटिंग अवधि बुधवार, 29 सितम्बर, 2021 को सायं 05:00 बजे समाप्त होगी। उपरोक्त तिथि एवं समय के उपरान्त ई–वोटिंग की अनुमति नही दी जायेगी।

कट ऑफ तिथिः 23 सितम्बर, 2021

एक व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों की पंजिका अथवा डिपाटरीज द्वारा बनाये गई लाभदाई स्वामी की पंजिका में कट-ऑफ तिथि को अंकित है, केवल वही रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा के साथ साधारण बैठक में वोटिंग के हकदार होंगे।

जिस व्यक्ति ने सूचना को भेजने के बाद शेयर्स अर्जित किये हों एवं कम्पनी का सदस्य बना हो लेकिन कट—ऑफ तिथि से पहले, ई-वाटिंग की सुविधा हेतु लॉग इन आईडी एवं पास वर्ड प्राप्त करने के लिए एजीएम की सूचना में दिये गये अनुदेशों का पालन करें।

7. कट–ऑफ तिथि को कम्पनी के भौतिक रूप में धारित सदस्य अथवा डिमैटरीलाइज प्रपत्र में धारित सदस्य ई–वोटिंग की सुविधा अथवा साधारण बैठक में मतदान प्रक्रिया के हकदार होंगे।

उपरोक्त तिथि एवं समय के उपरान्त ई—वोटिंग की अनुमति नही दी जायेगी।

एक सदस्य रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट देने के बाद वार्षिक साधारण बैठक में भाग ले सकता है लेकिन फिर से बैठक में वोट देने की अनुमति नहीं होगी।

10. इलेक्ट्रानिक माध्यम से वोटिंग से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की पूछताज अथवा शिकायत के लिए सदस्य लगातार प्रश्न पूछने (एफएक्यूज) एवं ई–वोटिंग के डाऊनलोड भाग http://www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध गाइड को संदर्भित कर सकते है अथवा

क) श्री प्रवीन शर्मा डी--153, प्रथम मंजिल, ओखला इन्डस्ट्रियल एरिया, फेस- I, नई दिल्ली - 110 020 ई-मेल: parveen@skylinerta.com, दूरभाष: 011-30857575.

ख) श्री पंकज डावर, (प्रबन्ध निदेशक), बैजल इन्टरनेशनल लिमिटेड, शाप न० 1, प्रथम मंजिल, सीडब्ल्यू-155, संजय गाँधी ट्रांसपोर्ट नगर, नई दिल्ली - 110042, ; ई–मेल: bazelinternational@gmail.com, दूरभाष: 011-69999159.

11. कम्पनी एजीएम को भौतिक रूप में संचालित कर रही है लेकिन उपरोक्त प्रावधानों एवं परिपत्र के अनुपालन में, उनतालीसवीं एजीएम एवं वित्तीय वर्ष 2020-21की वार्षिक रिपोर्ट सूचना की इलेक्ट्रानिक प्रतियाँ सभी कम्पनी के सदस्यों जिनके ईमेल पते कम्पनी/डिपाजटरीज भागीदार/रजिस्ट्रार एण्ड शेयर्स हस्तांतरण एजेन्ट ("आरटीए") के पास अंकित थे, को भेज दी गई हैं।

एजीएम की सूचना एवं वित्तीय वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट साथ में डाऊनलोड भाग http://www.evoting.nsdl.com एवं कम्पनी की वेबसाइट www.bazelinternationalltd.com पर उपलब्ध है।

13. ईमेल पते पंजीकरण/अपडेटिंग कराने का तरीका:

क) जो शेयरधारक भौतिक माध्यम में इक्वीटी शेयर्स धारित जिन्होने अपने ईमेल पते पंजीकृत/अपडेटेड नहीं कराये हैं, उनसे आग्रह है कि अपने पैन एवं बेकिंग विवरण कम्पनी/आरटीए के पास उपरोक्त जानकारी लिखित में कम्पनी को bazelinternational@amail.com पर साथ में हस्ताक्षरित पत्र नाम व शेयरधारक का पते का उल्लेख कर, बैंक विवरण एवं स्वअभिप्रमाणित पैन प्रतिलिपि/अन्य पते का कोई प्रमाण प्रस्तुत करें।

ख) जो शेयरधारक डिमैटरीलाइज माध्यम में शेयर्स धारित करते हो एवं अपना ईमेल पते एवं बैकिंग विवरण डिपाटरीज के पास पंजीकृत/अपडेटेड नहीं कराये हैं, से आग्रह है कि अपने ईमेल पते प्रासांगिक डिनाटरीज भागीदारों के पास पंजीकृत/अपडेट

14. ई-वाटिंग द्वारा वोट देने का तरीका : कम्पनी अपने सभी शेयरधारकों को ईजीएम की सूचना में वर्णित व्यवसाय में वोट देने के लिए रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करायेगी। रिमोट ई-वोटिंग द्वारा वोट देने के लिए लागइन साख शेयरधारकों को मेल द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी।

कम्पनीज अधिनियम, 2013 की धारा 91 एवं सेबी (सूची दायत्वों एण्ड प्रकटीकरण आवश्यकताओं) नियमन, 2015 के नियमन 42 प्रावधानों के अनुसरण में कम्पनी के सदस्यों की पंजिका एवं शेयर हस्तांतरण किताबें शुक्रवार, 24 सितम्बर, 2021 से वीरवार, 30 सितम्बर, 2021 तक (दोनों दिवस शामिल कर) एजीएम के उदेश्य हेत् बंद रहेंगी। (रिकार्ड तिथि: 23 सितम्बर, 2021).

कृते बैजल इनटरनेशनल लिमिटेड हस्ता०/-

पंकज डावर

(प्रबन्ध निर्देशक)



इंडियन ओवरसीज बैंक

कालकाजी शाखा, एफ-23, देशबंधु कॉलेज के सामने कालकाजी, नई दिल्ली-110019, दूरभाष- 011-26218059, 26462149

कब्जा नोटिस (अचल संपत्ति के लिए) (सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 की घारा 8(1) के तहत।)

जहां अधोहस्ताक्षरी इंडियन ओवरसीज बैंक के प्राधिकत अधिकारी होने के नाते. वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित के प्रवर्तन अधिनियम के तहत और सुरक्षा हित (प्रवर्तन) के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए नियम, 2002 ने दिनांक 19.04.2021 को ऋणी i) मैसर्स फिश पॉइंट (प्रोप. श्री हिमांशु): 661 / 7, दुकान नंबर 3, गोविंदपुरी, कालकाजी, नई दिल्ली —110019, और निवास का पताः पॉकेट ए −4, फ्लैट नंबर 269, दूसरी मंजिल, कोणार्क अपार्टमेंट, डीडीए फ्लैट्स , कालकाजी एक्सटेंशन, नई दिल्ली−110019 और ⁄ या (ii) श्रीमती आशा रानी, निवासी: पॉकेट ए—4, पँलैट नंबर 269, दूसरी मंजिल, कोणार्क अपार्टमेंट, डीडीए फ्लैट्स, कालकाजी एक्सटेंशन, नई दिल्ली—110019 को मांग नोटिस जारी किया। दिनांक 19.04.2021 को रु.19.85,524.60 (रू उन्नीस लाख पचासी हजार पांच सौ चौबीस और पैसे साठ मात्र) अतिरिक्त ब्याज और अन्य लागत / शुल्क आदि सहित नोटिस में उल्लिखित राशि को उक्त नोटिस (सूचनाओं) की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर के चुकाने उधारकर्ता / गारंटर राशि का भूगतान करने में विफल रहने पर, उधारकर्ता / गारंटर और आम जनता को एतदवारा नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी

ने धारा 13(4) उक्त अधिनियम के उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित 08 सितंबर 2021 को कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से उधारकर्ता / गारंटर और आम जनता को एतइवारा चेतावनी दी जाती है कि वे संपत्ति का लेन-देन न करें और संपत्ति के साथ कोई भी लेन—देन इंडियन ओवरसीज बैंक के प्रमार के अधीन होगा। दिनांक 19.04.2021 को रू. 19,85,524.60 प्लस अतिरिक्त ब्याज और अन्य लागत / शुल्क आदि

'उघारकर्ता और गारंटर का घ्यान सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की घारा 13 की उप–घारा (8) के प्रावधान की ओर आकर्षित किया जाता है।"

अचल संपत्तियों का विवरण

छत / छत अधिकारों के बिना वाणिज्यिक संपत्ति, दुकान संख्या -3, संपत्ति संख्या -661 के भूतल, गली नंबर -7, गोविंदपुरी, कालकाजी, नई दिल्ली में स्थित 10.217 वर्ग मीटर श्रीमती आशा पत्नी श्री वीरेंद्र कुमार के नाम पर है।

दिनांकः 06.08.2021, स्थानः नई दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारी, इंडियन ओवरसीज बैंक

इंडियन ऑवरसीज बेंक कालकाजी शाखा, एफ-23, देशबंधु कॉलेज के सामने

कालकाजी, नई दिल्ली-110019, दूरभाष- 011-26218059, 26462149 कब्जा नोटिस (अवल संपत्ति के लिए) (सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 की घारा 8(1) के तहत।)

जहां अधोहस्ताक्षरी इंडियन ओवरसीज बैंक के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित के प्रवर्तन अधिनियम के तहत और सुरक्षा हित (प्रवर्तन) के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियम, 2002 ने दिनांक 19.04.2021 को ऋणी श्री हिमांश पुत्र स्व. श्री वीरेंद्र कुमार, कार्यालय का पता: 661 / 7, दुकान नंबर 3, गोविंदपुरी, कालकाजी, नई दिल्ली -110019, और निवास का पता: पॉकेट ए -4, फ्लैट नंबर 269, दूसरी मंजिल, कोणार्क अपार्टमेंट, डीडीए फ्लैट, कालकाजी एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110019 को मांग नोटिस जारी किया। दिनांक 19.04.2021 को रू. 8,54,981.82 रुपये (रू. आठ लाख चौवन हजार नौ सौ ईकासी और पैसे बीयासी मात्र) अतिरिक्त ब्याज और अन्य लागत / शुल्क आदि सहित नोटिस में उल्लिखित राशि को उक्त नोटिस (सूचनाओं) की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर के चुकाने को कहा गया है।

उधारकर्ता / गारंटर राशि का भुगतान करने में विफल रहने पर, उधारकर्ता / गारंटर और आम जनता को एतद्दवारा नोटिस दिया जाता है कि अघोहस्ताक्षरी ने धारा 13(4) उक्त अधिनियम के उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित 06 सितंबर 2021 को कब्जा ले लिया है।

विशेष रूप से उधारकर्ता / गारंटर और आम जनता को एतद्दवारा चेतावनी दी जाती है कि वे संपत्ति का लेन-देन न करें और संपत्ति के साथ कोई मी लेन—देन इंडियन ओवरसीज बैंक के प्रभार के अधीन होगा। 19.04.2021 को रू. 8,54,981.82 प्लस अतिरिक्त ब्याज और अन्य लागत / शुल्क आदि सहित 'उघारकर्ता और गारंटर का घ्यान सुरक्षित परिसंपत्तियों को मुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की घारा 13 की उप–घारा (8) के प्रावधान की ओर आकर्षित किया जाता है।"

अचल संपत्तियों का विवरण बिना छत/छत के अधिकार वाली वाणिज्यिक संपत्ति, दुकान संख्या –4, संपत्ति संख्या –660 के भूतल, गली नंबर –7, गोविंदपुरी, कालकाजी, नई दिल्ली में स्थित 108.00 वर्ग फीट श्री हिमांशु पुत्र श्री. वीरेंद्र कुमार के नाम पर है। दिनांकः 06.08.2021, स्थानः नई दिल्ली

प्राधिकत अधिकारी, इंडियन ओवरसीज बैंक एसआरएफ लिमिटेड



सीआईएन : L18101DL1970PLC005197 पंजीकृत कार्यालय : द गैलेरिया, डीएलएफ मयूर विहार, इकाई सं. 236 एवं

237, द्वितीय तल, मयूर प्लेस, मयूर विहार फेज-I एक्स., दिल्ली-110091 कॉर्पोरेट कार्यालय : ब्लॉक सी, सेक्टर 45, गुरुग्राम-122003, दूरभाष : (+91-11) 49482870, (+91-124)4354400,

फैक्स : (+91-11) 49482900, (+91-124) 4354500, ई-मेल : cs@srf.com; वेबसाइट : www.srf.com

पोस्टल बैलट की सूचना

सदस्यों को एतद्वारा सूचना दी जाती है कि यथा संशोधित कम्पनी (प्रबन्धन एवं प्रशासन) नियम, 2014 (''नियम'') के साथ पठित धारा 110 के प्रावधानों तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') के अन्य प्रयोज्य प्रावधानों के अनुसार पोस्टल बैलट सूचना दिनांक 31 अगस्त, 2021 (''पोस्टल बैलट सूचना'') में निर्धारित विशेष संकल्प पारित करने हेतु एसआर लिमिटेड (''कम्पनी'') इलेक्ट्रॉनिक मतदान द्वारा अपने सदस्यों की स्वीकृति लेने की इच्छक है।

नियमों के साथ पठित अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के सन्दर्भ में तथा सामान्य परिपत्र सं. 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल, 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, 22/2020 दिनांक 15 जून, 2020, 33/2020 दिनांक 28 सितम्बर, 2020, 39/2020 दिनांक 31 दिसम्बर, 2020 तथा सामान्य परिपत्र सं. 10/2021 दिनांक 23 जून, 2021 (''एमसीए परिपत्र'') के माध्यम से ई-वोटिंग द्वारा आम बैठक/पोस्टल बैलट संचालन प्रक्रिया आयोजित करने हेतु कॉर्पीरेट मामले मन्त्रालय (''एमसीए'') निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार ई-वोटिंग सम्बन्धित निर्देशों सिहत पोस्टल बैलट सूचना केवल ई-मेल द्वारा उन सभी सदस्यों के पास सोमवार, 6 सितम्बर, 2021 को भेजे जा चुके हैं जिनके ई-मेल पते कम्पनी या डिपॉजिटरी/डिपॉजिटरी भागीदारों अथवा रजिस्टार एवं अन्तरण एजेन्ट (''आरटीए'') केफिनटेक टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (''केफिन'') के साथ पंजीकृत हैं तथा जिन सदस्यों के नाम शुक्रवार, 3 सितम्बर, 2021 (''कट-ऑफ तिथि'') तक सदस्यों के रजिस्टर/लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज हैं। सदस्य अपनी सहमति या असहमति केवल रिमोट ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से ही दर्ज करा सकेंगे।

पोस्टल बैलट सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.srf.com तथा केफिनटेक की वेबसाइट https://evoting.kfintech.com पर उपलब्ध है। एमसीए परिपत्रों के अनुसार तथा पोस्टल एवं कोरियर सेवाओं की अनुपलब्धता को देखते हुए पोस्टल बैलट सूचना, पोस्टल बैलट प्रपत्र तथा प्रीपेड बिजिनेस रिप्लाई लिफाफे इस पोस्टल बैलट हेतु सदस्यों को नहीं भेजे गये हैं।

जिन सदस्यों के ई-मेल पते पंजीकृत नहीं हैं जिसके कारण वे पोस्टल बैलट सूचना प्राप्त नहीं कर सकते हैं वे नीचे गयी पंजीकरण प्रक्रिया का अनुपालन करके कम्पनी के आरटीए, केफिनटेक के साथ अपने ई-मेल पते अस्थायी रूप से पंजीकृत करा सकते हैं:

इलेक्ट्रॉनिक फोलियो हेतु प्रक्रिया :

लिंक https://ris.kfintech.com/clientservices/postalballot/registration.aspx देखें। 1. कम्पनी का नाम चुनें।

2. शेयरधारक डीपीआईडी-सीएलआईडी/फोलियो नं. तथा पैन नं. प्रविष्ट करें।

3. शेयरधारक ई-मेल आईडी तथा मोबाइल नं. प्रविष्ट करें।

4. सिस्टम क्लाइंट आईडी तथा पैन की प्रामाणिकता की जाँच करेगा और पुष्टि के लिए मोबाइल तथा ई-मेल पर विभिन्न वन-टाइम पासवर्ड (ओटीपी) भेजेगा।

5. शेयरधारक एसएमएस तथा ई-मेल द्वारा प्राप्त ओटीपी प्रविष्ट करके सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करेंगे (ओटीपी केवल 5 मिनट के लिए वैध होगा)

6. सिस्टम सर्विस्ड पोस्टल बैलट सूचना के सीमित उद्देश्य हेतू ई-मेल आईडी की पृष्टि करेगा।

7. सिस्टम शेयरधारक द्वारा दिये गये ई-मेल पर ई-वोटिंग हेतु सूचना तथा प्रक्रिया भेजेगा।

भौतिक फोलियो हेतु प्रक्रिया : लिंक https://ris.kfintech.com/clientservices/postalballot/registration.aspx देखें।

1. कम्पनी का नाम चुनें। 2. शेयरधारक भौतिक फोलियो नं. तथा पैन नं. प्रविष्ट करें।

3. यदि पैन नं. रिकार्ड में उपलब्ध नहीं है तो शेयरधारक कोई एक प्रमाणपत्र सं. प्रविष्ट करें।

4. शेयरधारक ई-मेल आईडी तथा मोबाइल नं. प्रविष्ट करें।

5. सिस्टम फोलियो नं. तथा पैन/प्रमाणपत्र संख्या की प्रामाणिकता की जाँच करेगा और पुष्टि के लिए मोबाइल तथा ई–मेल पर विभिन्न ओटीपी भेजेगा।

6. शेयरधारक एसएमएस तथा ई-मेल द्वारा प्राप्त ओटीपी प्रविष्ट करके सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करेंगे (ओटीपी केवल 5 मिनट के लिए वैध होगा) 7. यदि पैन उपलब्ध नहीं है तो सिस्टम पैन की विधिवत हस्ताक्षरित स्कैन प्रति अपलोड करने के लिए सुचित करेगा।

8. सिस्टम ई-मेल आईडी के पंजीकरण की पुष्टि करेगा।

9. सिस्टम शेयरधारक द्वारा दिये गये ''ई-मेल'' पर ई-वोटिंग हेतु सूचना तथा प्रक्रिया भेजेगा।

ई-मेल पते के सफल पंजीकरण के उपरान्त इस पोस्टल बैलट हेतु ई-वोटिंग में सक्षम करने के लिए सदस्य को यूजर आईडी तथा पासवर्ड सहित सूचना तथा ई-वोटिंग की प्रक्रिया की सॉफ्ट कॉपी प्राप्त होगी। किसी पूछताछ के लिए शेयरधारक einward.ris@kfintech.com को लिख सकते हैं।

पोस्टल बैलट प्रक्रिया की निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से संचालन के लिए श्री अरुणेश दुबे, प्रोपराइटर मैसर्स अरुणेश दुबे एण्ड कं., कार्यरत सचिव (एफसीएस : 7721/सीपी सं. 14054) को 'संवीक्षक' के रूप में नियुक्त किया गया है।

इलेक्ट्रॉनिक धारिता के मामले में सम्बद्ध डिपॉजिटरी भागीदार के माध्यम से डिपॉजिटरी के साथ तथा भौतिक धारिता के मामलें में कम्पनी के आरटीए, केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, सेलेनियम, टॉवर बी, प्लॉट 31 एवं 32, गाचीबावली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुड़ा, हैदराबाद-500 032, भारत के साथ उचित प्रक्रिया का अनुपालन करके अपने ई-मेल पते स्थायी रूप से पंजीकृत करा लें।

अधिनियम की धारा 108 तथा 110 के प्रावधानों तथा उसके तहत निर्मित पठित नियमों, यथा संशोधित भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 44 (''सूचीबद्धता विनियम'' एवं एमसीए परिपत्रों के अनुसार कम्पनी ने सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक रूप (''रिमोट ई-वोटिंग'') से अपने मतदान के लिए सदस्यों को सक्षम करने हेतु रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए केफिनटेक को एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है। सदस्यों के मताधिकार कट-ऑफ तिथि तक मान्य होंगे। जो व्यक्ति कट-ऑफ तिथि तक सदस्य नहीं है उसे इस सचना को केवल सचना के उददेश्य से लेना चाहिए।

ई-वोटिंग प्रारम्भ होने की अवधि मंगलवार, 7 सितम्बर, 2021 को 9.00 बजे प्रातः (भा.मा.स.) से प्रारम्भ होगी और बुधवार, 6 अक्टूबर, 2021 को 5.00 बजे अप. (भा.मा.स.) समाप्त होगी। उपर्युक्त समय के उपरान्त ई-वोटिंग मॉड्यूल केफिन द्वारा निष्क्रिय कर दिया जायेगा। इसके पश्चात मतदान की अनमति नहीं होगी, सदस्य द्वारा मतदान की एक बार पुष्टि हो जाने के उपरान्त बाद में इसमें परिवर्तन करने की अनुमित नहीं होगी।

पोस्टल बैलट के परिणाम अधिकतम बृहस्पतिवार, 7 अक्टूबर, 2021 तक कम्पनी के कॉर्पीरेट कार्यालय में घोषित किये जायेंगे। अपेक्षित बहुमत से पारित होने पर संकल्प को ई-वोटिंग हेतु कम्पनी द्वारा निर्दिष्ट अन्तिम तिथि अर्थात बुधवार, 6 अक्टूबर, 2021 को पारित माना जायेगा।

संवीक्षक की रिपोर्ट सहित पोस्टल बैलट के परिणाम कम्पनी की वेबसाइट www.srf.com तथा केफिनटेक की ई-वोटिंग वेबसाइट httpsV/evoting.kfintech.com पर अपलोड कर दिये जायेंगे। इसे तत्काल ही बीएसई लिमिटेड (बीएसई) तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इण्डिया लिमिटेड (एनएसई), एक्सचेंजों जहाँ कम्पनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, को सूचित किया जायेगा तथा कम्पनी के पंजीकृत एवं कॉर्पीरेट कार्यालय पर प्रदर्शित किया जायेगा। किसी पृछताछ/जानकारी/शिकायत के लिए सदस्य https://evoting.karvy.com के डाउनलोड खण्ड में उपलब्ध (i)

रिमोट ई-वोटिंग यूजर मैनुअल अथवा (ii) फ्रीक्वेंटली आस्कड क्वेश्चन्स (एफएक्यू) का सन्दर्भ ले सकते हैं या सम्पर्क करें : श्री बी.वी. किशोर, उप-प्रबन्धक-कॉर्पोरेट रजिस्ट्री, केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, सेलेनियम, टॉवर बी. प्लॉट सं. 31 एवं 32, गाजीबावली, फाइनेंशियल डिस्ट्क्टि, नानकरामगुडा, हैदराबाद 500 032, भारत, ई-मेल : einward.ris@kfintech.com; 1800-3454-001 (टोलफ्री) अथा कम्पनी सचिव के पास cs@srf.com पर लिखें। निदेशक मण्डल के आदेशानुसार

कृते एसआरएफ लिमिटेड

रजत लखनपाल

www.readwhere.com

स्थान : नई दिल्ली तिथि : 07-09-2021

सदस्यता सं. ए७८१२

तिथि: 08-09-2021 स्थान: नई दिल्ली

कार्यालय का पताः शाप न० 1, प्रथम मंजिल, सीडब्ल्यू-155, संजय गाँधी ट्रांसपोर्ट नगर, नई दिल्ली - 110042

तिथि: 6 सितम्बर, 2021 स्थानः गुरुग्राम

वीपी (कॉर्पोरेट अनुपालन)

एवं कम्पनी सचिव

IDBI Asset Management Limited

CIN: U65100MH2010PLC199319 Registered Office: IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Colaba, Mumbai - 400005 Corporate Office: 4th Floor, IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Colaba, Mumbai - 400005 Tel: (022) 66442800 Fax: (022) 66442801 Website: www.idbimutual.co.in E-mail: contactus@idbimutual.co.in

NOTICE CUM ADDENDUM NO. 13/2021-22

CHANGE IN ADDRESS OF OFFICIAL POINT OF ACCEPTANCE Investors are requested to take note of the change in address of the official point of acceptance ("POA") of

Location	Current Address	New Address	Effective Date
93		7 1	5 K

This Addendum shall form an integral part of Statement of Additional Information, Scheme Information Document / Key Information Memorandum of all the schemes of IDBI Mutual Fund, as amended from time to time.

For IDBI Asset Management Limited (Investment Manager to IDBI Mutual Fund)

Company Secretary and Compliance Officer

September 13.

2021

Place: Mumbai Date: September 07, 2021

55/18 Jeney Building, 1st Floor,

S N Road, Near Aravind Eye

Hospital, Tirunelveli - 627001

IDBI MF Trustee Company Limited as the Trustee ("Trustee" under the Indian Trusts Act, 1882) and with IDBI Asset Management Limited as the Investment Manager. Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

Statutory Details: IDBI Mutual Fund has been set up as a trust sponsored by IDBI Bank Limited with



Tirunelveli

GAYATRI SUGARS LIMITED

Regd. & Corp. Office: B-2, 2nd Floor, 6-3-1090, T.S.R. Towers, Rajbhavan Road, Somajiguda, Hyderabad-500 082. TG, IN Tel: 040-23414823/4826 GAYATRI E mail:gayatrisugars@gmail.com

55/18 Jeney Building, 2nd Floor,

S N Road, Near Aravind Eye

Hospital, Tirunelveli - 627001

CIN: L15421TG1995PLC020720

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING AND REMOTE E-VOTING

Notice is hereby given that the 26[™] Annual General Meeting (AGM) of the Members Gayatri Sugars Limited will be held on Wednesday, the 29th September, 2021 at 12.30 P.M through Video Conference (VC)/Other Audio Visual Means (OAVM) to transact such items of Business as mentioned in the said **notice dated June 22, 2021**.

The Annual Report for the financial year 2020-2021, including the notice convening the AGM, was sent to the Members of the Company through electronic mode, whose email addresses are registered with the Company/Depositories on September 03, 2021 and the meeting shall be conducted without physical presence in accordance with the circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs and Securities Exchange Board of India. The AGM notice and the Annual Report have also been uploaded on our website-

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing e-voting facility to all its members holding shares either in physical or in dematerialized form to cast their vote electronically. The Procedure for remote e-voting is available in the e-voting instructions forming part of the notice. The Board of Directors of the Company has appointed Y. Koteswara Rao, Practicing Company Secretary for conducting e-voting process in accordance with law in a fair and transparent manner. The Company has engaged the services of M/s. Central Depository Services (India) Limited (CDSL) for e-voting facility and is available at www.evotingindia.com.

- All the business may be transacted through voting by electronic means.
- Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e 22nd September 2021 may cast their vote electronically on the items of business as set out in the notice. The voting rights of members for e-voting and voting during AGM shall be in proportion to their shareholding in the paid up equity share capital of the Company as on the cut-off date.
- Sending of all notices through e-mail was completed by the Company on 07.09.2021.
- Remote E-voting commences on September 26, 2021 at 09:00 A.M and ends on September 28, 2021, at 05:00 P.M. The remote e-voting module shall be disabled by the CDSL thereafter and voting by electronic means shall not be allowed beyond the said date. Once the vote on a resolution is cast by the shareholder it cannot be changed subsequently.
- Any person who becomes member of the Company after dispatch of the Notice of the meeting and holding shares as of the Cutoff date i.e., 22nd September, 2021, shall view the Notice of the AGM on the website of the Company www.gayatrisugars.com such person can follow the same instructions which have been mentioned under e-voting in Notice. Those members who will be present in the AGM through VC /OAVM facility and have not cast their vote on the resolutions
- through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through remote e-voting system during the AGM through VC/OAVM from CDSL remote e-voting system. The member who cast their vote through remote e-voting prior to AGM may also attend the AGM through VC/OAVM but shall
- not be entitled to cast their vote again. In case of queries or grievances pertaining to remote e-voting procedure, shareholders may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and remote e-voting user manual for Shareholders available at the help section of www.evotingindia.com or may contact Mr. VR Prasad, Chief Financial Officer at Gayatri Sugars Limited, B-2, TSR Towers, 6-3-1090, Rajbhavan Road,

Somajiguda, Hyderabad - 500 082 or send an email to cs.gsl@gayatri.co.in Tel: 040-23414823/26 or contact Mr. P.V. Srinivasa Rao/Mr. E.S.K. Prasad, Senior Manager at Venture Capital and Corporate Investments Limited, House No. 12-10-167, Bharat Nagar, Hyderabad – 500018, Email: info@vccilindia.com Tel: 040-23818475. Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 the 'Register of Members and Share Transfers Books' for

the Equity Shares of the Company will remain closed from 22nd September, 2021 to 29th September, 2021 (both days

By the Order of the Board

For **GAYATRI SUGARS LIMITED**

T. SARITA REDDY **Managing Director**

DIN 00017122

Date: 07.09.2021 Place: Hyderabad

inclusive) for the purpose of Annual General Meeting.

///Sterlite Power

Sterlite Power Transmission Limited Registered Office: 4th Floor, Godrej Millennium, 9 Koregaon Road, Pune, Maharashtra – 411001, India Corporate Office: F-1, The Mira Corporate Suites, 1 and 2 Ishwar Nagar, Mathura Road, New Delhi 110 065, India

CIN: U74120PN2015PLC156643 | Phone: 011 499 622 00 | Fax: 011 499 622 88 Email: secretarial.grid@sterlite.com | www.sterlitepower.com

NOTICE OF THE SIXTH ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD OVER VIDEO CONFERENCE

Notice is hereby given that the Sixth Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held on Wednesday, September29, 2021 at 4.00 p.m. IST through Video Conferencing ("VC") / Other Audio-Visual Means ("OAVM") pursuant to the General Circular numbers 14/2020, 17/2020, 20/2020 and 02/2021 dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020 and January 13, 2021, respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs and Circular Nos. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021, respectively issued by the Securities and Exchange Board of India (hereinafter collectively referred to as "Applicable Circulars"). The AGM of the Company is being conducted through VC/OAVM and does not require physical presence of Members at a common venue to transact the businesses as set forth in the Notice of meeting dated August 30, 2021 ("the Notice").

In compliance with the aforesaid circulars, the Notice of AGM and Annual Report ('AGM documents") has been sent only through electronic mode to all the Members whose e-mail addresses are registered with the Company or the Depository Participant(s). AGM documents are also available on the Company's website at www.sterlitepower.com and on the website of KFin Technologies Private Limited ("KFIN") at www.evoting.kfintech.com. The dispatch of AGM documents through emails has been completed on September 07, 2021.

Members can attend the AGM only through VC/OVAM facility. Members will have the opportunity to cast their votes by using remote e-voting or e-voting system that will be made available at the AGM. Members holding shares in dematerialized form are requested to register their email addresses and mobile numbers with their relevant depositories through their DP. Members holding shares in physical mode are requested to furnish their e-mail address, mobile number and self-attested PAN copy to the Company's Registrar and Share Transfer Agent, KFIN at einward.ris@kfintech.com. The AGM Documents and/or login details for joining the AGM through VC / OAVM including e-voting can also be obtained by sending the aforesaid documents to KFIN.

Pursuant to the Companies Act, 2013 the Company is offering facility to all its Members to exercise their vote by electronic means ("remote e-voting") on the businesses set forth in the Notice. The Company has engaged the services of KFIN as Authorized Agency to provide e-voting facility.

- All the Members are informed that:
- The businesses as set forth in the Notice of AGM will be transacted through remote e-voting or e-voting system at the AGM ("Insta Poll"). 2. The remote e-voting period commences on Sunday, September 26, 2021 from 9.00 a.m. (IST) and endson
- Tuesday, September 28, 2021at 5.00 p.m. (IST).
- A person, whose name appears in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the depositories as on the cut-off date, i.e. Wednesday, September 22, 2021 only shall be eligible to vote through remote e-voting or through Insta Poll at the AGM.
- 4. The log in credentials for casting votes through e-voting are made available to Members through email. Any person who becomes a member of the Company after dispatch of the Notice & holds shares as on the cut-off date i.e. Wednesday, September 22, 2021, may generate log in credentials by following the instructions provided in the Notice. However, if the person is already registered with KFIN for remote e-voting then the existing user ID and password can be used for casting vote. The same log in credentials should be used for attending the AGM. Members may note that: a) The remote e-voting shall not be allowed beyond 5.00 p.m. (IST) on Tuesday,
- September 28, 2021 and once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently; b) The facility for voting, through Insta Poll, shall be made available at the AGM; c) Members who have cast their vote through remote e-voting may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again.
- The manner of voting remotely for Members holding shares in dematerialized/physical mode and for Members who have not registered their email addresses is provided in the Notice.
- Ms. Mehak Gupta, proprietor of Mehak Gupta & Associates, Practicing Company Secretaries (Membership No. FCS 10703 and Certificate of Practice No. 15013), has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner.
- In case of any grievances relating to the e-voting procedure, Members are requested to contact Mr. Rajeev Kumar, Dy. Manager, KFin Technologies Private Limited, Selenium Tower B, Plot 31-32, Gochibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad 500 032; email ID einward.ris@kfintech.com or call the toll free number 1800 309 4001. Further, in case of any query pertaining to e-voting, please visit Help & FAQ's section available at KFIN's website www.evoting.kfintech.com

Members may also visit www.sterlitepower.comfor details.

Date: September 08,2021

financialexp.epapr.in

Place: New Delhi

For Sterlite Power Transmission Limited

By order of the Board of Directors

Circulars.

Ashok Ganesan Company Secretary& Compliance Officer

APOLLO TYRES LTD. APOLLO TYRES LTD Regd. Office: 3rd Floor, Areekal Mansion

Near Manorama Junction, Panampilly Nagar, Kochi- 682036 (Kerala) (CIN-L25111KL1972PLC002449) Tel: +91 484 4012046, Fax: +91 484 4012048, Email: investors@apollotyres.com Web: apollotyres.com

NOTICE

Sub: Transfer of Equity Shares of the Company to Investor Education and Protection Fund (IEPF)

This Notice is published pursuant to the applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 notified by the Ministry of Corporate Affairs as amended from time to time ("the Rules"). The Rules, amongst other matters, contain provisions for transfer of unpaid or unclaimed dividend to IEPF authority and transfer of shares in respect of which dividend remains unpaid or unclaimed for seven consecutive years or more to IEPF. The Company has sent individual communication to the concerned shareholders at

their registered address whose shares are liable to be transferred to IEPF under the Rules for taking appropriate action(s). The Company has also uploaded complete details of the concerned shareholders whose dividends are lying unclaimed for seven consecutive years and whose shares are due for transfer to IEPF on its website at www.apollotyres.com under the "Investors/Shareholders information" section. Shareholders are requested to verify the details of the shares liable to be Shareholders whose dividend is unclaimed for the financial year 2013-14 and

onwards are requested to claim the unclaimed dividend within three months from the date of this notice by sending a formal letter duly signed by all the joint holders along with (i) Self attested copy of PAN card (ii) Certified copy of Address Proof and mentioning the Email ID (if any), the telephone contact no. (s) and the Cancelled blank cheque bearing name of the shareholder, at the Company's Registrar - Mr. Rajkumar Kale, KFin Technologies Pvt. Ltd (Unit:Apollo Tyres Ltd), Selenium Tower B, Plot 31 & 32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally Mandal, Hyderabad - 500 032, Telangana. The said application should reach the Registrar within three months from the date of this notice failing which the Company would initiate necessary action for transfer of shares to the IEPF without any further notice, in accordance with the rules. In the event of failure to claim the dividend before the time period mentioned above,

new share certificate(s) will be issued and transferred in favour of IEPF on completion of necessary formalities if you are holding shares in physical form. Hence, the original share certificate(s) which stand registered in your name will be deemed as cancelled. If you are holding shares in Demat form, the Company shall inform the depository by way of corporate action for transfer of shares lying in your demat account in favour of IEPF. Please note that no claim shall lie against the Company in respect of unclaimed

dividend amount and equity shares transferred to the IEPF. Shareholders may note that both the unclaimed dividend amount and the shares transferred can be claimed from the IEPF Authority by making an online application in the prescribed form IEPF-5 available at www.iepf.gov.in and by sending the physical copy of the same duly signed along with requisite documents to the Registrar at the above mentioned address for verification of the claim. In case Shareholders have any queries and above documents on the subject matter

or the Rules, they may contact the Company's Registrar at - Mr. Raj Kumar Kale, KFin Technologies Pvt. Ltd (Unit: Apollo Tyres Ltd), Selenium Tower B, Plot 31 & 32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally Mandal, Hyderabad - 500 032, Telangana, Contact No.Toll Free No.18003094001, Tel. No. 04067162222, Email Address: einward.ris@kfintech.com For Apollo Tyres Ltd.

Date : September 6, 2021 Place : Gurgaon

Seema Thapar Company Secretary & Compliance Officer



Cochin 682003, Tel: 0484-6624362, Fax: 0484-2668024 e-mail:hmlcorp@harrisonsmalayalam.com • Website:www.harrisonsmalayalam.com

NOTICE OF THE 44th ANNUAL GENERAL MEETING (AGM)

INFORMATION ON BOOK CLOSURE AND E-VOTING Notice is hereby given that

1) The 44th Annual General Meeting (AGM) of the members of Harrisons Malayalam Ltd. ("the Company") will be held on Wednesday, September 29, 2021 at 12:00 Noon (IST), through Video Conferencing /Other Audio Visual Means (VC/OAVM) to transact the business as set out in the Notice convening the AGM, in compliance with General Circular numbers 14/2020, 17/2020, 20/2020, and 02/2021 dated 8th April 2020,13th April 2020, 5th May 2020 and 13th January 2021 respectively issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and Circular number SEBI/ HO/ CFD/ CMD1/ CIR/ P/ 2020/79 dated 13th May 2020 as amended by Circular No. SEBI/ dated 12th May 2020 as amended by Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated 15th January, 2021 issued by Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circulars"), without the physical presence of the Members at the AGM Venue. Accordingly the AGM of the Company is also being held through Video Conferencing/Other Audio Visual Means (VC/OAVM).

 In compliance with the above Circulars, electronic copies of the Notice of the 44th AGM and Annual Report for the FY 2020-21 have been sent to all members whose email ids are registered with the Company / Registrar & Share Transfer Agents / Depository Participant(s). The Notice and Annual Report of the 44th AGM will also be available on the website of the company at www.harrisonsmalayalam.com, website of the Stock Exchanges ie. BSE Limited, National Stock Exchange of India Ltd., at www.bseindia.com, www.nseindia.com & on the website of CDSL at www.evotingindia.com. The dispatch of notice of the AGM through emails has been completed as of now. The instructions for joining the 44th AGM of the Company and the manner of participation in the remote e-voting system or casting vote through the e-voting system during the 44th AGM of the Company are provided in the Notice of the 44th AGM.

 Members holding shares either in physical form or dematerialized form, as on the Cut-off date i.e Wednesday, September 22, 2021 may cast their votes electronically on the business as set forth in the Notice of the AGM through the electronic voting system of CDSL

Members are hereby informed that: a) The business as set forth in the notice of the AGM may be transacted through remote e-voting or e-voting system during the 44th AGM.

b) The remote e-voting period shall commence on Sunday, September 26, 2021 (9.00 a.m IST) and ends on Tuesday, September 28, 2021 (5.00 p.m IST).

 c) The Cut-off date for determining the eligibility to vote by remote e-voting or by e-voting system at the AGM shall be Wednesday, September 22, 2021.

d) Members may note:

(i) The remote e voting module shall be disabled by CDSL after 5:00 pm (IST) on September 28, 2021 and once the votes on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it

(ii) the facility for e-voting will also be made available during the AGM, and those members present in the AGM through VC/OAVM facility and who have not cast their vote on the resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through the e- voting system at the AGM.

(iii) The members who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their votes again; and (iv) Only persons whose name is recorded in the register of the members as on the Cut-off date shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or e-voting at the AGM

e) The Manner of remote e-voting for the members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for the members who have not registered their email addresses are provided in the Notice of the 44th AGM which is also available on the website the Company. Members are requested to visit www.harrisonsmalayalam.com to obtain such details.

f) Any person who acquires shares of the Company and become member, post -dispatch of AGM Notice and holding shares as on the cut-off date may obtain login id and password by referring to instructions in the Notice of AGM or can also follow procedure mentioned below for registration of email id for obtaining future correspondence.

g) PROCESS FOR THOSE SHAREHOLDERS WHOSE EMAIL ADDRESSES ARE NOT REGISTERED WITH THE DEPOSITORIES FOR OBTAINING LOGIN CREDENTIALS FOR E-VOTING FOR THE RESOLUTIONS PROPOSED IN THIS

 Kindly log in to the website of our RTA, Link Intime India Private Ltd. www.linkintime.co.in under Investor Services > Email/Bank detail Registration - fill in the details and upload the required documents and submit. The members are requested to provide details such as Name, Folio Number, Certificate number, PAN, e - mail id along with the copy of the PAN & cheque leaf with the first named shareholders name imprinted in PDF or JPEG format & also upload the image of share certificate with the request letter duly signed in PDF or JPEG format OR

 ii) For Demat shareholders -, Please update your email id & mobile no. with your respective Depository Participant (DP) iii) For Individual Demat shareholders - Please update your email id &

mobile no. with your respective Depository Participant (DP) which is mandatory while e-Voting & joining virtual meetings through Depository.

h) Pursuant to Section 91 of the Companies Act 2013 read with applicable Rules and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations 2015 the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from September 23, 2021 to September 29, 2021 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting. i) The results declared along with the report of the scrutinizer shall be placed on the website of the company www.harrisonsmalayalam.com

and also will be informed to the stock exchanges, www.bseindia.com and www.nseindia.com. In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com. For any technical assistance/ query/

clarification or issues regarding remote e-voting / e-voting during the AGM, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact Mr. Rakesh Dalvi (022-2305 8542 / 43). In case of any further queries, please contact our Registrar and Share Transfer Agents at their e-mail ID: coimbatore@linkintime.co.in

The above information is being published for the benefit & information of shareholders and is in compliance with the MCA Circulars and SEBI

For Harrisons Malayalam Limited Cochin - 682003 September 07, 2021 Company Secretary FINANCIAL EXPRESS



VERTOZ ADVERTISING LIMITED (Formerly Known as Vertoz Media Limited & Vertoz Media Private Limited)

Registered & Corporate Office: 602, Avior Nirmal Galaxy, Opp. Johnson & Johnson, LBS Marg, Mulund (West), Mumbai, Maharashtra, India - 400 080. Corporate Identity Number: L74120MH2012PLC226823 Tel: +91 22 6142 6030; Fax: +91 22 6142 6061 Website: www.vertoz.com ; Email: compliance@vertoz.com

NOTICE OF THE 10TH ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION AND RECORD DATE

Dear Member(s) Notice is hereby given that the Tenth Annual General Meeting of the Company ("10" AGM") will be convened on Thursday, 30" September 2021

- at 12.00 Noon through Video Conference ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") facility to in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circular Nos. 14/2020, 17/2020 and 20/2020 dated 8th April, 2020, 13th April, 2020 5th May, 2020 and 13th January 2021 respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circular/s") and Circular dated 12" May 2020 and 15" January 2021 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circular"), without the physical presence of the Members at a common venue. The Company has completed dispatch of Electronic copies of Notice of the 10th Annual General Meeting and the Annual Report for the Financial Year 2020-2021 including the Financial Statements for the year ended 31st March, 2021 ("Annual Report") by email to all those Members, whose email addresses are registered with the Company or with their respectively Depository Participants ("Depository"), as on the cut-off date 3rd September, 2021
- in accordance with the MCA Circular/s and the SEBI Circular. Members can join and participate in the 10th AGM through VC/OAVM facility only. The instructions for joining the 10th AGM and the manner of participation in the remote electronic voting or casting vote through the e-voting system during the 10th AGM are provided in the Notice of the 10th AGM. Members participating through the VC/OCVM facility shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. The Notice of the 10th AGM and the Annual Report will also be available on the website of the Company i.e. www.vertoz.com and the website of Stock Exchange where the Shares of the Company are listed i.e. NSE Limited at The Company is providing remote E-voting facility ("remote e-voting") through KFin Technologies Private Limited (KFin Tech) to all its Members, to cast their votes on all the Resolutions set out in the Notice of the AGM. Additionally, the Company is providing the facility of voting through e-voting system
- during the Annual General Meeting ("e-voting"). The Board of Directors of the Company has fixed Thursday, 23rd September 2021 as the cut-off date/ record date for the purpose of entitlement to avail the facility of remote e-voting before the Annual General Meeting or during the Annual General Meeting. The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday, 24th September 2021 to Thursday, 30th September 2021 (both days inclusive) for taking record of the Members of the Company for the purpose of Annual General Meeting
- Detailed procedure for remote e-voting/ e-voting and joining AGM is provided in the Notice of the AGM.
- i. The remote e-voting shall commence on 27th September 2021 (9.00 a.m. IST) and ends on 29th September 2021 (5.00 p.m. IST); E-voting by electronic mode shall not be allowed beyond 5.00 p.m. IST on 29th September, 2021 and the same shall be disable by the KFin Tech thereafter, Any person who acquires the Shares of the Company becomes the Shareholder after dispatch of the Notice of AGM and holding Share as on
- cut-off (i.e. 23th September 2021) should follow the same procedure for e-voting as mentioned in the Notice. Members may note that once the vote on a resolution is cast by the Members, they shall not be allowed to change it subsequently. The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the Meeting may aftend the Meeting but shall not be entitled to cast their vote again.
- The procedure of electronic voting is available in the notice of the AGM. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) section available at KFintech's website at https://evoting.kfintech.com or call on toll free no.: 1-800-3454001 or send a request at

Members are carefully requested to read all the notes set out in the AGM Notice and in particular instructions for joining the AGM, manner of casting vote through E-Voting or E-Voting at the AGM.

By order of the Board For Vertoz Advertising Limited

Company Secretary & Compliance Officer

Dated: 07.09.2021 Zill Shah



Place: Mumbai

SRF LIMITED CIN: L18101DL1970PLC005197

Registered Office: The Galleria, DLF Mayur Vihar, Unit No. 236 & 237, Second Floor, Mayur Place, Mayur Vihar Phase I Extn, Delhi - 110091 Corporate Office: Block C, Sector 45, Gurugram-122003

Tel. No: (+91-11) 49482870, (+91-124) 4354400 Fax: (+91-11) 49482900, (+91-124) 4354500 Email: cs@srf.com; Website: www.srf.com

NOTICE OF POSTAL BALLOT

Members are hereby informed that pursuant to provisions of Sections 108 and 110 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the act") read with Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ("the Rules"), as amended, SRF Limited ("the Company") is seeking approval from its Members for passing of Resolutions as set out in the Postal Ballot Notice dated August 31, 2021 ("Postal Ballot Notice") by way of electronic voting.

In terms of the relevant provisions of the Act read with the Rules and in accordance with the guidelines prescribed by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") for holding general meetings/ conducting postal ballot process through e-voting vide General Circular Nos. 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 22/2020 dated June 15, 2020, 33/2020 dated September 28, 2020, 39/2020 dated December 31, 2020 and General Circular No. 10/2021 dated June 23, 2021 ("MCA Circulars") the Postal Ballot Notice along with the instructions regarding e-voting has been sent only by email on Monday, September 06, 2021 to all those Members, whose email address is registered with the Company or with the Depositories/Depository Participants or Registrar & Transfer Agent ("RTA") Kfin Technologies Private Limited ("Kfintech") and whose names appear in the Register of Members/list of Beneficial Owners as on Friday, September 03, 2021 ("Cut-off Date"). Members are required to communicate their assent or dissent through the remote e-voting system only.

The Postal Ballot Notice is available on the website of the company at www.srf.com and on the e-voting website of Kfintech at https://evoting.kfintech.com As per the MCA Circulars, physical copy of Postal Ballot Notice, Postal Ballot Form and pre-paid business reply envelope have not been sent to the Members for this Postal Ballot

Members who have not registered their email address and in consequence could not receive the Postal Ballot Notice may temporarily get their email address registered with the Company's RTA, Kfintech, by following the registration process given below:

Procedure for Electronic folios:

Visit the link: https://ris.kfintech.com/clientservices/postalballot/registration.aspx

- Select the company name
- Shareholder to enter DPID-CLID / Folio No. and PAN No.
- Shareholder to enter the e-mail id and mobile no.
- System check the authenticity of the client id and PAN and send the different One-time Passwords (OTPs) to mobile no. and e-mail id to validate. 5. Shareholder to enter the OTPs received by SMS and e-mail id to complete the validation
- process (OTPs will be valid for 5 minutes only).
- System confirms the e-mail id for the limited purpose of services Postal Ballot notice. System will send the notice & procedure for e-voting to the e-mail given by the shareholder.

Procedure for Physical folios:

Visit the link https://ris.kfintech.com/clientservices/postalballot/registration.aspx

Select company name

Date: September 06, 2021

New Delhi

Place: Gurugram

- Shareholder to enter physical Folio No and PAN No.
- 3. If PAN No. is not available in the records, shareholder to enter one of the Certificate No. Shareholder to enter the e-mail id and mobile no. System check the authenticity of the Folio No. and PAN/Certificate No. and send the different
- OTPs to mobile no, and e-mail id to validate.
- Shareholder to enter the OTPs received by SMS and e-mail id to complete the validation process. (OTPs will be valid for 5 min. Only). If PAN is not available, the system will prompt to upload the duly signed scan copy of the
- System confirms the registration of e-mail id. 9. System will send the notice & procedure for e-voting to the "e-mail id" given by the shareholder

Post successful registration of the e-mail, the shareholder would get a soft copy of the notice and the procedure for e-voting along with the User ID and the Password to enable e-voting for this Postal Ballot. In case of any queries, the shareholder may write to einward.ris@kfintech.com.

Mr. Arunesh Dubey Proprietor of M/s Arunesh Dubey & Co., Practicing Company Secretaries (FCS: 7721 / CP No. 14054) has been appointed as "Scrutinizer" for conducting the Postal Ballot process in a fair and transparent manner. In compliance with the provisions of Sections 108 and 110 of the Act read with the rules made

there under, Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, as amended, ("the Listing Regulations") and in accordance with the MCA Circulars, the Company has engaged Kfintech as the agency for facilitating remote e-voting to enable the Members to cast their votes electronically ("remote e-voting"). Voting rights of the members shall be reckoned as on the Cut-off Date. Person who is not a Member as on the Cut-off Date should treat this notice for information purposes only.

end on Wednesday, October 06, 2021 at 5.00 P.M. (IST). The e-voting module shall be disabled by Kfintech for voting after the abovementioned time. No voting shall be allowed thereafter once the vote is confirmed by the Member, he/she shall not be allowed to change it subsequently. The result of the Postal Ballot shall be announced not later than Thursday, October 07, 2021 at

the Corporate Office of the Company. The resolution, if passed by the requisite majority, shall

be deemed to have been passed on the last date specified by the Company for e-voting, i.e.

The period of evoting shall commence on Tuesday September 07, 2021 at 9.00 A.M. (IST) and

Wednesday, October 06, 2021. The result of the Postal Ballot along with the Scrutinizer's Report will be placed on the Company's website, i.e. website of Kfintech i.e. https://evoting.kfintech.com. The same shall simultaneously be communicated to the BSE Limited (BSE) and National Stock Exchange of India Limited (NSE), Exchanges on which the shares of the Company are listed and

displayed at the registered office and Corporate office of the company. In case of any query/concern/grievance, Members may refer the (i) remote e-voting user manual or (ii) Help & Frequently asked questions (FAQs), available at the downloads section of https://evoting.kfinetch.com or may contact Mr B.V. Kishore, Deputy Manager - Corporate Registry, Kfin Technologies Private Limited, Selenium, Tower B, Plot 31 & 32, Gachibowli, Financial District, Nanak Ramguda, Hyderabad 500 032, India, at email: einward.ris@kfintech.com; 1800-3454-001 (toll free) or may write to the Company Secretary at cs@srf.com.

> By Order of the Board of Directors For SRF LIMITED

> > Rajat Lakhanpal VP (Corporate Compliance) & **Company Secretary**